



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 50-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 15, 2019 (PHALGUNA 24, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 मार्च, 2019

संख्या 2/86/1991—श्रम.— पंजाब श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1966, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, पंजाब श्रमिक कल्याण अधिनियम, 1965 (1965 का पंजाब अधिनियम 17) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर, या उसके पश्चात् सरकार नियमों के प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. यह नियम पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) नियम 2019, कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1966 में, नियम 18 के स्थान पर, निम्नलिखित (चिह्न तथा अंक) नियम प्रतिस्थापित (कोष्ठक चिह्न तथा अंक) किया जाएगा, अर्थात्—

“18 निधि निवेश निधि का ऐसा भाग जो बिना उपयोग किए रह गया था उसका निवेश बोर्ड द्वारा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 20 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों में किया जाएगा या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम 5), की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का केन्द्रीय अधिनियम 40), की धारा 3 के अधीन गठित किसी अनुसूचित बैंक, किसी समनुषंगी बैंक, किसी तत्स्थानी नए बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कोई बैंक होते हुए किसी अन्य बैंक या हरियाणा राज्य के किसी सहाकारी बैंक के किसी खाते में जमा।

टिप्पणी: इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, “अनुसूचित बैंक” से अभिप्राय: है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक।”।

डॉ० महावीर सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**LABOUR DEPARTMENT****Notification**

The 15th March, 2019

No. 2/86/1991-2Lab.— The following draft of rules further to amend the Punjab Labour Welfare Fund Rules, 1966 as applicable to the State of Haryana, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (t) of sub section (2) of section 27 of the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965 (Punjab Act 17 of 1965) is hereby published as required by sub-section (I) of section 27 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration by the State Government on or expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Labour Department from any person (s) with respect to the draft of the amended rules before the expiry of the period so specified.

1. These rules may be called the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Rules, 2019.

2. For rule 18 of the Punjab Labour Welfare Fund Rules, 1966, the following rule shall be substituted, namely:-

“18. Investment of Fund.- Such portion of the fund as remained unutilized shall be invested by the Board in the National Saving Certificates or other securities referred to in section 20 of the Indian Trust Act, 1882 (Central Act 2 of 1882) or deposited in any account with a Scheduled Bank, a subsidiary bank, a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Central Act 5 of 1970) or under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Central Act 40 of 1980) or any other bank being a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India, 1934 (Central Act 2 of 1934) or with a co-operative bank of the State of Haryana.

Note: For the purpose of this rule, “ Scheduled Bank” means the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (Central Act 23 of 1955).”

DR. MAHAVIR SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Labour Department.